

आज दिनांक 06 सितम्बर, 2018 को मर्चेट्स चेम्बर ऑफ उत्तर प्रदेश एवं कोटेक महिंद्रा बैंक के संयुक्त तत्वाधान में मर्चेट्स चेम्बर के डॉ. गौर हरी सिंघानिया सभागार में "निवेश के अवसर एवं आर्थिक रुझान (Investments Opportunities and Economic trends: A micro prospective by priority banking)" पर सत्र का आयोजन किया गया।

श्री बी.एम. गर्ग, उपाध्यक्ष, मर्चेट्स चेम्बर ऑफ उत्तर प्रदेश ने उपस्थित सभी सदस्यों, कोटेक महिंद्रा बैंक के अधिकारियों तथा मीडियाकर्मियों का स्वागत करते हुए सत्र को आगे की कार्यवाही के लिए आग्रह किया।

श्री रचित श्रीवास्तव, कोटेक महिंद्रा बैंक ने कोटेक महिंद्रा बैंक के उद्देश्य, विजन, कोटेक बैंक बैंक की सेवाओं, स्थापना, आदि पर विस्तार से बताया। उन्होंने बताया कि कोटेक महिंद्रा बैंक ग्राहक की सेवाओं के लिए सदैव तत्पर है जिसमें कुछ मूलभूत सुविधाओं जैसे कोटेक बैंक में जमा की जाने वाली चेक, बैंक में खोले गए खातों में जमा की जाने वाली धनराशि को ग्राहक के तथाकथित स्थान से संगृहीत करना, आदि का बिना अतिरिक्त शुल्क लिए प्रदान किया जाना शामिल है। श्री श्रीवास्तव ने बताया कि किसी भी सेवा के लिए ग्राहक को उसके सम्बंधित खाते में न्यूनतम धनराशि रखने के लिए बाध्य नहीं किया गया है। कोटेक बैंक की (लगभग) समस्त सेवाएँ (जैसे लॉन्स, ऑनलाइन करेंसी इन्वेस्टमेंट आदि) ऑनलाइन प्लेटफार्म पर उपलब्ध है।

श्री आशीष अग्निहोत्री, एस,बी,आई. म्यूच्युअल फण्ड, ने निवेश तथा उससे जुड़े हुए वर्तमान अवधारणाओं पर विस्तारपूर्वक पॉवर-प्वाइंट प्रस्तुतीकरण दिया। श्री अग्निहोत्री ने फाइनेंसियल इंस्टिट्यूशनल इन्वेस्टमेंट्स (F.I.I.) के (घटते व बढ़ते) व अंतर्राष्ट्रीय बाजार के रुझान पर बताया जो कि मुख्यतः Liquidity Crunch, Crude Prices व अमेरिका व चीन के क्रियाकलापों पर निर्भर करता है। दुनिया के देशों पर इसका सकारात्मक व नकारात्मक प्रभाव पड़ता है परन्तु भारत पहले की तुलना में कहीं बेहतर स्थिति में है। करेंट अकाउंट डेफिसिट का घटना, म्यूच्युअल फंड्स में निवेश व केन्द्रीय बैंक का सतत प्रयास प्रमुख है। उन्होंने बताया कि एक निवेशक को कम से कम (मिड व स्माल कैप में) 5 साल (लॉन्ग टर्म) के लिए निवेश करना चाहिए जिससे निवेशक को उसके निवेश का बेहतर रिटर्न प्राप्त हो सके।

सत्र का संचालन श्री आशीष सिंह ने किया।

सत्र के समापन के अन्त में मर्चेट्स चेम्बर के सदस्य श्री रवि भार्गव ने अपने भाषण में प्रत्येक सत्र में जन-साधारण को निवेश सम्बन्धी जागरूक करने का सुझाव देते हुए उपस्थित सभी जनों का धन्यवाद दिया।

सत्र में डॉ. जे.एन. गुप्ता, श्री अतुल कनोडिया, श्री बासु जैन, श्री जे.पी.अग्रवाल, श्री महेंद्र नाथ मोदी, सचिव-मर्चेट्स चेम्बर ऑफ उत्तर प्रदेश, मर्चेट्स चेम्बर ऑफ उत्तर प्रदेश के सदस्यगण तथा कोटेक महिंद्रा बैंक के अधिकारीगण उपस्थित थे।

सधन्यवाद

मर्चेट्स चेम्बर ऑफ उत्तर प्रदेश